

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम

दिनांक – 09 - 03-2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज देशज एवं विदेशज के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे।

**देशज और विदेशज शब्द** - हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार ( तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ) के होते हैं।

**देशज शब्द :-**

वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परन्तु वे प्रचलन में हों। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आम तौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किये जाते हैं।

**उदाहरण -**

लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चसक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाब...

**विदेशी / विदेशज शब्द :-**

विदेशी भाषाओं से हिंदी में आये शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं।

**अरबी शब्द**

अदा, अजब, अजीब, अमीर, अकल, असर, अल्ला, आसार, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत, ईमारत, इस्तीफ़ा, इजाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, औलाद, कसार, कसूर, कब्र, कदम, कमल, कर्ज, किस्मत, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, ख्याल, खराब, खिदमत, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम,

तकाजा, तकदीर, तारिख, तकिया, तमाशा, तरफ, तादात, तरक्की, तजुरबा, दिमाग,  
दवा, दाबा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दुकान, दुनिया, दौलत, दान, दीन,  
नतीजा, नशा, नकद, नक़ल, नहर, फ़कीर, फायदा, फैसला, बाज, बहस,  
बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मरजी, माल, मिसाल, मजबूर, मालूम, मामूली,  
मुक़दमा, मुल्क, मल्लाह, मौसम, मौका, मौलवी, मुसाफिर, मशहूर, मतलब, मानी,  
यतीम, राय, लिहाज, लफ़्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, वहम,  
वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हद, हक़, हुक्म, हाल, हाकिम, हमला,  
हवालात, हौसला...